

नकली शराब बनाने के ठेके का भंडाफोड़

Publish Date: Tue, 10 Dec 2019 09:28 PM (IST)

- आबकारी विभाग ने चलाया अभियान, दो गिरफ्तार

-कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा

-अनारस के साथ बिहार शराब भेजते थे बदमाश

-दस लाख रुपये से अधिक का शराब भी जब्त जागरण संवाददाता, सिलीगुड़ी : पड़ोसी राज्य बिहार सप्लाई किए जाने वाले नकली शराब के ठेके से पश्चिम आबकारी विभाग ने दस लाख रुपये का शराब जब्त किया है। आबकारी विभाग के इस अभियान में दो लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। आरोपियों में मंजिल सोरेन (24) और रंजीत सोरेन (41) शामिल हैं। दोनों को मंगलवार सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया गया है। अदालत ने दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

गुप्त जानकारी के आधार पर मंगलवार सुबह पश्चिम बंगाल आबकारी विभाग की नक्सलबाड़ी सर्कल की टीम ने सिलीगुड़ी से सटे विधान नगर स्थित पाड़ागाछी इलाके में अभियान चलाया। इलाके के एक घर से 810 लीटर नकली शराब, 200 लीटर ओपी स्पिरिट और नकली लेवल, कैप आदि बरामद किया है। जब्त नकली शराब की बाजार कीमत दस लाख रुपये आंकी गई है। अभियान में गिरफ्तार दोनों आरोपी पाड़ागाछी इलाके के ही निवासी हैं। आबकारी विभाग सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार इलाके में काफी समय से यह ठेका चलाया जा रहा था। यह ठेका प्रधान मार्डी का बताया गया है। बल्कि प्रधान मार्डी व सुमन मार्डी मिलकर यह ठेका चला रहा था। अभियान की भनक लगते ही ये दोनों मौके से फरार हो गए। इनके ठेके पर ओपी स्पिरिट (कच्चा स्पिरिट) में रंग व अन्य पदार्थ मिलाकर शराब तैयार किया जाता था। जिसे ब्रांडेड विदेशी शराब के बोतल में डालकर सील व लेवल लगाकर सप्लाई किया जाता था। इस ठेके से मुख्यतः बिहार में शराब की सप्लाई की जाती थी। सूत्रों की माने तो विधान नगर से अनारस के साथ बिहार सहित देश के अन्य हिस्सों में भी भेजा जाता है। बिहार में नकली शराब की सप्लाई के लिए अनारस से लदे ट्रकों का ही उपयोग किया जाता था। शराबबंदी के बाद से बिहार की सीमा से सटे विभिन्न राज्यों से शराब व मादक पदार्थों की तस्करी में काफी इजाफा हुआ है। सिलीगुड़ी व आस-पास के इलाके से भी शराब की तस्करी बिहार करने का कई मामला सामने आ चुका है। बल्कि भारी मात्रा में शराब जब्त के साथ कई तस्करों की गिरफ्तारी भी हुई है।

नक्सलबाड़ी सर्कल प्रभारी संजय कुमार चक्रवर्ती ने बताया कि गुप्त जानकारी के आधार पर अभियान चलाया गया। करीब दस लाख का नकली शराब जब्त किया गया है। दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उन्होंने आगे बताया कि इस ठेके से भारी मात्रा में नकली शराब बिहार भेजा जाता था। बिहार के साथ राज्य के भी विभिन्न हिस्सों में डिलीवरी होती थी। इस अभियान में आबकारी विभाग के प्रधान नगर सर्कल प्रभारी उत्तम महतो, सिलीगुड़ी सर्कल प्रभारी चिन्मय महतो, सिलीगुड़ी रेंज प्रभारी विजय तिग्गा, डीसी बागडोगरा सुनंदा भंडाचार्य व टीम की सराहनीय भूमिका रही।

Source: <https://www.jagran.com/west-bengal/darjeeling-sl-sl-sl-sl-19833151.html>